



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2011/पौष 29, 1932

No. 28]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2011/PAUSA 29, 1932

## संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

( डाक विभाग )

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2011

**सा.का.नि. 37(अ)**—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 74 के साथ पठित धारा 34 एवं 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाकघर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में नियम 102 के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

### ‘1ए-इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय डाक

102क. पंजीकृत पार्सल, बीमाकृत पार्सल, पंजीकृत पत्र, बीमित पत्र, पंजीकृत बुक पैकेट, आवधिक पत्रिकाओं वाले पंजीकृत बुक पैकेट, मुद्रित पुस्तकों वाले पंजीकृत बुक पैकेट, समाचार-पत्र डाक शुल्क की दरों पर पंजीकरण शुल्क सहित पूर्व-प्रदत्त समाचार-पत्र, एक्सप्रेस पार्सल, बीमित एक्सप्रेस पार्सल को इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय डाक वस्तुओं के तौर पर पारेषित किया जा सकता है :

बशर्ते कि ऐसी किसी डाक वस्तु के मामले में, प्रेषक को प्रेषण के लिए निर्दिष्ट राशि को पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें रुपए का अंश शामिल नहीं होगा तथा ऐसी वस्तुओं में कूपन, टिकट सर्टिफिकेट अथवा सामान की बिक्री के लिए तैयार किए गए इंट्रोडक्शन (परिचय), जिसे “स्नोबॉल प्रणाली” कहा जाता है, नहीं होने चाहिए।

102ख. महानिदेशक डाक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित किसी भी डाकघर में, प्रेषक को यह घोषित करना होगा कि इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय डाक वस्तु के तौर पर इस वस्तु के डाक द्वारा पारेषण की अनुमति दी गई है।

102ग. किसी वस्तु का आंतरिक मूल्य न होने पर भी उसे इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय डाक द्वारा भेजा जा सकता है। इस प्रकार कानूनी दस्तावेज, बांड, बीमा पालिसियां, वचन-पत्र, रेलवे का सामान और पार्सल रसीद, लदान के बिल अथवा संग्रहण के लिए सामान्य बिल को इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय डाक वस्तु के तौर पर भेजा जा सकता है। रेलवे रसीद अथवा लदान बिल को इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय डाक वस्तु के तौर पर भेजे जाने के मामले में, यदि वास्तविक आदेश के कार्यान्वयन में रेलवे रसीद अथवा लदान बिल से संबंधित वस्तु को भेजा जाता है, तो यह इस नियम के प्रयोजनार्थ पर्याप्त है। अन्य दस्तावेजों के मामले में, दस्तावेज को भेजने के लिए एक वास्तविक आदेश के कार्यान्वयन में विशिष्ट निर्दिष्ट दस्तावेज को भेजना चाहिए।

102घ. ई-भुगतान की सुविधा वाले डाकघर किसी भी डाकघर को वितरित की जाने वाली इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय डाक वस्तुएं बुक कर सकते हैं।

102ङ. (1) प्रत्येक डाक वस्तु जिसे इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय वस्तु के तौर पर डाक द्वारा पारेषित किया जाना है, उसे डाकघर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डाक द्वारा पारेषित की जाने वाली वस्तु के प्रेषक को वस्तु के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए :

(क) ऊपर बाएं हाथ के कोने पर—“ई-वीपी” शब्द के बाद प्रेषित की जाने वाली राशि की प्रविष्टि को, अंकों और शब्दों में।

(ख) नीचे बाएं हाथ के कोने पर—अपना नाम और पूरा पता।

(2) वस्तु पर लिखित प्रेषण राशि पर किसी प्रकार की कांट-छांट, अधिलेखन, मिटा हुआ नहीं होना चाहिए।

- (3) डाक-शुल्क के अतिरिक्त, पंजीकरण शुल्क, बीमा शुल्क जहां कहीं भी उद्ग्राह्य हो, इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय डाक वस्तु के तौर पर डाक द्वारा पारेषित किए जाने वाली वस्तु के प्रेषक को प्रति वस्तु पंद्रह रुपए के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा, जो किसी भी मामले में वापस नहीं किया जाएगा।

102च. प्रेषिती से वसूल की जाने वाली राशि प्रेषक द्वारा उसे प्रेषित किए जाने वाली विशिष्ट राशि होगी। प्रेषिती से राशि वसूल किए जाने पर ई-भुगतान द्वारा बुकिंग कार्यालय के माध्यम से उसे भुगतान राशि प्रेषित की जाएगी।

102छ. नियम 97, 99, 100, 101 और 102 के प्रावधान इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय डाक वस्तुओं के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार मूल्यदेय डाक वस्तुओं के मामले में लागू होते हैं।

102ज. इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय पत्र, इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय पार्सल और एक्सप्रेस पार्सल को बीमित किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, नियम 72 से 83 के प्रावधान इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय पत्र, इलेक्ट्रानिक मूल्यदेय पार्सल और मूल्यदेय एक्सप्रेस पार्सल के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उन बीमित डाक वस्तुओं पर लागू होते हैं जिन पर ये नियम लागू हैं।"

[फा. सं. 2-1/2009-पीओ]

मीरा हांडा, उप-महानिदेशक (पीओ एंड सीपी)

टिप्पणी.—1-1-1975 तक यथासंशोधित मूल नियम डाक एवं तार मैनुअल वोल्यूम-1, विधायी अधिनियमन, पार्ट-1, पंचम संस्करण में प्रकाशित किए गए हैं और जिन्हें बाद में निम्नलिखित से संशोधित किया गया है :—

1. सा.का.नि. 2888(अ), दिनांक 19 दिसम्बर, 1975
2. सा.का.नि. 596(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1975
3. सा.का.नि. 741(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 1975
4. सा.का.नि. 472(अ), दिनांक 24 जनवरी, 1976
5. सा.का.नि. 93(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1976
6. सा.का.नि. 811(अ), दिनांक 31 मई, 1976
7. सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 21 जून, 1976
8. सा.का.नि. 135(अ), दिनांक 7 जनवरी, 1978
9. सा.का.नि. 304(अ), दिनांक 29 मई, 1978
10. सा.का.नि. 316(अ), दिनांक 18 मई, 1979
11. सा.का.नि. 4118(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1979
12. सा.का.नि. 1256(अ), दिनांक 13 मई, 1980
13. सा.का.नि. 490(अ), दिनांक 26 जून, 1980
14. सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 26 जून, 1980
15. सा.का.नि. 380(अ), दिनांक 5 जून, 1981
16. सा.का.नि. 409(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 1981

17. सा.का.नि. 59(अ), दिनांक 11 फरवरी, 1982
18. सा.का.नि. 411(अ), दिनांक 13 मई, 1982
19. सा.का.नि. 417(अ), दिनांक 22 मई, 1982
20. सा.का.नि. 520(अ), दिनांक 10 अगस्त, 1982
21. सा.का.नि. 33(अ), दिनांक 20 जनवरी, 1983
22. सा.का.नि. 49(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1983
23. सा.का.नि. 92(अ), दिनांक 21 मार्च, 1983
24. सा.का.नि. 444(अ), दिनांक 23 मार्च, 1983
25. सा.का.नि. 37(अ), दिनांक 17 जनवरी, 1984
26. सा.का.नि. 1652(अ), दिनांक 19 मई, 1984
27. सा.का.नि. 637(अ), दिनांक 16 अप्रैल, 1986
28. सा.का.नि. 329(अ), दिनांक 3 मई, 1986
29. सा.का.नि. 461(अ), दिनांक 14 जून, 1986
30. सा.का.नि. 2420(अ), दिनांक 28 जून, 1986
31. सा.का.नि. 436(अ), दिनांक 24 जुलाई, 1986
32. सा.का.नि. 2460(अ), दिनांक 24 जुलाई, 1986
33. सा.का.नि. 3677(अ), दिनांक 25 अक्टूबर, 1986
34. सा.का.नि. 1333(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1986
35. सा.का.नि. 85(अ), दिनांक 6 फरवरी, 1987
36. सा.का.नि. 548(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1987
37. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 10 अप्रैल, 1987
38. सा.का.नि. 265(अ), दिनांक 11 अप्रैल, 1987
39. सा.का.नि. 480(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 1987
40. सा.का.नि. 531(अ), दिनांक 27 मई, 1987
41. सा.का.नि. 438(अ), दिनांक 6 जून, 1987
42. सा.का.नि. 632(अ), दिनांक 27 अगस्त, 1987
43. सा.का.नि. 688, दिनांक 30 अगस्त, 1987
44. सा.का.नि. 807(अ), दिनांक 2 सितम्बर, 1987
45. सा.का.नि. 823(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 1987
46. सा.का.नि. 829(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 1987
47. सा.का.नि. 976(अ), दिनांक 9 नवम्बर, 1987
48. सा.का.नि. 1(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1988
49. सा.का.नि. 2(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1988

- |  |  |
|--|--|
| 50. सा.का.नि. 55(अ), दिनांक 15 जनवरी, 1988     | 84. सा.का.नि. 544(अ), दिनांक 5 जून, 1990       |
| 51. सा.का.नि. 212(अ), दिनांक 26 फरवरी, 1988    | 85. सा.का.नि. 545(अ), दिनांक 5 जून, 1990       |
| 52. सा.का.नि. 344(अ), दिनांक 4 मार्च, 1988     | 86. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 13 जून, 1990      |
| 53. सा.का.नि. 388(अ), दिनांक 14 अप्रैल, 1988   | 87. सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 10 अगस्त, 1990     |
| 54. सा.का.नि. 462(अ), दिनांक 2 मई, 1988        | 88. सा.का.नि. 628(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1990    |
| 55. सा.का.नि. 639(अ), दिनांक 23 मई, 1988       | 89. सा.का.नि. 671(अ), दिनांक 31 अगस्त, 1990    |
| 56. सा.का.नि. 683, दिनांक 7 जून, 1988          | 90. सा.का.नि. 694(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 1990  |
| 57. सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 29 जून, 1988      | 91. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 12 अक्टूबर, 1990  |
| 58. सा.का.नि. 633(अ), दिनांक 1 जुलाई, 1988     | 92. सा.का.नि. 918(अ), दिनांक 28 नवम्बर, 1990   |
| 59. सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 8 जुलाई, 1988     | 93. सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 1991  |
| 60. सा.का.नि. 866(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 1988  | 94. सा.का.नि. 178, दिनांक 6 अप्रैल, 1992       |
| 61. सा.का.नि. 1022(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 | 95. सा.का.नि. 79, दिनांक 4 जनवरी, 1993         |
| 62. सा.का.नि. 14(अ), दिनांक 4 जनवरी, 1989      | 96. सा.का.नि. 259(अ), दिनांक 5 मार्च, 1993     |
| 63. सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 10 जनवरी, 1989     | 97. सा.का.नि. 420(अ), दिनांक 17 मई, 1993       |
| 64. सा.का.नि. 180(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1989    | 98. सा.का.नि. 615(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 1993  |
| 65. सा.का.नि. 223(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1989    | 99. सा.का.नि. 616(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 1993  |
| 66. सा.का.नि. 180(अ), दिनांक 1 मार्च, 1989     | 100. सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 1993 |
| 67. सा.का.नि. 314(अ), दिनांक 1 मई, 1989        | 101. सा.का.नि. 43(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1994    |
| 68. सा.का.नि. 435(अ), दिनांक 9 जून, 1989       | 102. सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 18 फरवरी, 1994   |
| 69. सा.का.नि. 478(अ), दिनांक 24 जून, 1989      | 103. सा.का.नि. 152(अ), दिनांक 26 मार्च, 1994   |
| 70. सा.का.नि. 639(अ), दिनांक 26 अगस्त, 1989    | 104. सा.का.नि. 484(अ), दिनांक 2 जून, 1994      |
| 71. सा.का.नि. 804(अ), दिनांक 12 अक्टूबर, 1989  | 105. सा.का.नि. 502(अ), दिनांक 8 जून, 1994      |
| 72. सा.का.नि. 821(अ), दिनांक 16 अक्टूबर, 1989  | 106. सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 7 नवम्बर, 1994   |
| 73. सा.का.नि. 898, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989      | 107. सा.का.नि. 836(अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 1994  |
| 74. सा.का.नि. 965, दिनांक 12 दिसम्बर, 1989     | 108. सा.का.नि. 860(अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 1994 |
| 75. सा.का.नि. 1077(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 | 109. सा.का.नि. 873(अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 1994 |
| 76. सा.का.नि. 1078(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 | 110. सा.का.नि. 931(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 1994 |
| 77. सा.का.नि. 967(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1989  | 111. सा.का.नि. 121(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1995   |
| 78. सा.का.नि. 198(अ), दिनांक 5 फरवरी, 1990     | 112. सा.का.नि. 342(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 1995  |
| 79. सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 1 मार्च, 1990     | 113. सा.का.नि. 484(अ), दिनांक 14 जून, 1995     |
| 80. सा.का.नि. 197(अ), दिनांक 5 मार्च, 1990     | 114. सा.का.नि. 736(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 1995  |
| 81. सा.का.नि. 312(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 1990    | 115. सा.का.नि. 737(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 1995  |
| 82. सा.का.नि. 358(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 1990   | 116. सा.का.नि. 926(अ), दिनांक 20 नवम्बर, 1995  |
| 83. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 11 मई, 1990       | 117. सा.का.नि. 764(अ), दिनांक 29 नवम्बर, 1995  |
|  | 118. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 7 दिसम्बर, 1995  |
|  | 119. सा.का.नि. 201(अ), दिनांक 7 मई, 1996       |

- |  |  |
|--|--|
| 120. सा.का.नि. 372(अ), दिनांक 21 अगस्त, 1996   | 156. सा.का.नि. 511(अ), दिनांक 27 जुलाई, 2007   |
| 121. सा.का.नि. 27(अ), दिनांक 18 सितम्बर, 1996  | 157. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2007    |
| 122. सा.का.नि. 517(अ), दिनांक 6 नवम्बर, 1996   | 158. सा.का.नि. 775(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 |
| 123. सा.का.नि. 573(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 1996 | 159. सा.का.नि. 22(अ), दिनांक 9 जनवरी, 2008     |
| 124. सा.का.नि. 267(अ), दिनांक 19 मई, 1997      | 160. सा.का.नि. 59(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2008    |
| 125. सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 30 मई, 1997      | 161. सा.का.नि. 238(अ), दिनांक 28 मार्च, 2008   |
| 126. सा.का.नि. 318(अ), दिनांक 10 जून, 1997     | 162. सा.का.नि. 400(अ), दिनांक 25 मई, 2008      |
| 127. सा.का.नि. 351(अ), दिनांक 27 जून, 1997     | 163. सा.का.नि. 588(अ), दिनांक 11 अगस्त, 2008   |
| 128. सा.का.नि. 723(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 | 164. सा.का.नि. 864(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 |
| 129. सा.का.नि. 41(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1998    | 165. सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 9 फरवरी, 2009     |
| 130. सा.का.नि. 42(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1998    | 166. सा.का.नि. 282(अ), दिनांक 24 अप्रैल, 2009  |
| 131. सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 26 जुलाई, 1998   | 167. सा.का.नि. 789(अ), दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 |
| 132. सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 19 अगस्त, 1998   | 168. सा.का.नि. 310(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2010  |
| 133. सा.का.नि. 40(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1999    | 169. सा.का.नि. 517(अ), दिनांक 16 जून, 2010     |
| 134. सा.का.नि. 46(अ), दिनांक 22 जनवरी, 1999    | 170. सा.का.नि. 408(अ), दिनांक 17 मई, 2010      |
| 135. सा.का.नि. 77(अ), दिनांक 9 फरवरी, 1999     | 171. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 5 मई, 2010       |
| 136. सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 13 मई, 1999      | 172. का.आ. 10(अ), दिनांक 4 जनवरी, 2011         |
| 137. सा.का.नि. 357(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2000  |  |
| 138. सा.का.नि. 672(अ), दिनांक 25 अगस्त, 2000   |  |
| 139. सा.का.नि. 71(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2001     |  |
| 140. सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 24 मई, 2001      |  |
| 141. सा.का.नि. 7(अ), दिनांक 3 जनवरी, 2002      |  |
| 142. सा.का.नि. 23(अ), दिनांक 11 जनवरी, 2002    |  |
| 143. सा.का.नि. 366(अ), दिनांक 14 मई, 2002      |  |
| 144. सा.का.नि. 381(अ), दिनांक 24 मई, 2002      |  |
| 145. सा.का.नि. 612(अ), दिनांक 2 सितम्बर, 2002  |  |
| 146. सा.का.नि. 637(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2002 |  |
| 147. सा.का.नि. 705(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 2002  |  |
| 148. सा.का.नि. 514(अ), दिनांक 10 अगस्त, 2004   |  |
| 149. सा.का.नि. 670(अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 |  |
| 150. सा.का.नि. 292(अ), दिनांक 13 मई, 2005      |  |
| 151. सा.का.नि. 30(अ), दिनांक 20 जनवरी, 2006    |  |
| 152. सा.का.नि. 466(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2006    |  |
| 153. सा.का.नि. 487(अ), दिनांक 18 अगस्त, 2006   |  |
| 154. सा.का.नि. 663(अ), दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 |  |
| 155. सा.का.नि. 210(अ), दिनांक 20 मार्च, 2007   |  |

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY**

**(Department of Posts)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th January, 2011

**G.S.R. 37(E).**—In exercise of powers conferred by Sections 34 and 35 read with Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office, Rules, 1933, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Second Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Post Office Rules, 1933, after rule 102, the following shall be inserted, namely :—

**“1A-ELECTRONIC VALUE PAYABLE POST**

102 A. Registered parcels, insured parcels, registered letters, insured letters, registered book packets, registered book packets containing periodicals, registered book packets containing printed books, newspapers prepaid with postage at newspaper rates of postage and with registration fee, express parcels, insured express parcels, may be transmitted by the inland post as electronic value payable postal articles :—

Provided that the amount specified for remittance to the sender in the case of any such postal article shall not exceed five thousand rupees and shall not include a fraction of a rupee and that such articles do not contain coupons, tickets certificates or introductions designed for the sale of goods on what is known as the "Snowball System".

102 B. At any post office notified from time to time in this behalf by the Director General Posts, the sender shall be required to declare that the article is the one the transmission of which by post as a electronic value payable postal article is permitted.

102 C. An article may be sent by the electronic value payable post even though it possesses no intrinsic value. Thus legal documents, Bonds, policies of insurance, promissory notes, railway goods and parcel receipts, bills of lading or ordinary bills for collection may be sent as electronic Value Payable Postal articles. In the case of railway receipt or bill of lading sent as an electronic Value Payable postal article it will be sufficient for the purpose of this rule if the article to which railway receipt or bill of lading relates has been sent in execution of bonafide order. In the case of other documents specified document must be sent in execution of a bonafide order to send the document itself.

102 D. The Post offices having the facility of e-payment may book electronic Value Payable Postal articles deliverable at any post office.

102 E. (1) Every postal article intended to be transmitted by post as an electronic Value Payable article shall be presented at the post office. The senders of the article intended to be transmitted by post shall write clearly on the face of the article itself —

- (a) In the upper left hand corner - the letters "e-VP" followed by an entry, in figure and words of the amount for remittance to himself, and
- (b) In the lower left hand corner his own name and full address.
- (2) There should not be any cutting, over writing erasing in the amount of remittance written on the article.
- (3) In addition to postage, registration fee, insurance fee where leviable, the sender of the postal article intended to be transmitted by post as an electronic Value Payable Postal article shall be required to pay an additional fee of rupees fifteen per article which will not be refundable in any case.

102 F. The amount to be recovered from the addresses shall be the sum specified by the sender for remittance to him. When the amount is recovered from addressee, the sum for payment shall be remitted to him through office of booking by means of e-payment.

102 G. The provisions of rules 97, 99, 100, 101 and 102 shall so far as may, apply in relation to electronic Value Payable Postal articles as they apply to Value Payable Postal articles.

102 H. Electronic Value Payable letters, electronic value payable Parcels and Express Parcels may be insured. The provisions of rules 72 to 83 shall, so far as may, apply in relation to electronic Value Payable letter, electronic Value Payable Parcels and Value Payable Express Parcels as they apply to insured postal articles to which these rules apply."

[F.No.2-1/2009-PO]

MEERA HANDA, Dy. Director General (PO & CP)

**Note.**—The principal rules as amended up to 1-1-1975 have been published in the Posts and Telegraphs Manual Volume-1, Legislative Enactments, Part-I, Fifth Edition and subsequently amended by—

1. G.S.R. 2888, dated the 19th December, 1975
2. G.S.R. 596 (E), dated the 30th December, 1975
3. G.S.R. 741 (E), dated the 31st December, 1975
4. G.S.R. 472, dated the 24th January, 1976
5. G.S.R. 93 (E), dated the 25th February, 1976
6. G.S.R. 811 (E), dated the 31st May, 1976
7. G.S.R. 943 (E), dated the 21st June, 1976
8. G.S.R. 135 (E), dated the 7th January, 1978
9. G.S.R. 304 (E), dated the 29th May, 1978
10. G.S.R. 316 (E), dated the 18th May, 1979
11. G.S.R. 4118 (E), dated the 29th December, 1979
12. G.S.R. 1256 (E), dated the 13th May, 1980
13. G.S.R. 490 (E), dated the 26th June, 1980
14. G.S.R. 491 (E), dated the 26th June, 1980
15. G.S.R. 380 (E), dated the 5th June, 1981
16. G.S.R. 409 (E), dated the 26th September, 1981
17. G.S.R. 59 (E), dated the 11th February, 1982
18. G.S.R. 411 (E), dated the 13th May, 1982
19. G.S.R. 417 (E), dated the 22nd May, 1982
20. G.S.R. 520 (E), dated the 10th August, 1982
21. G.S.R. 33 (E), dated the 20th January, 1983
22. G.S.R. 49 (E), dated the 2nd February, 1983
23. G.S.R. 92 (E), dated the 21st March, 1983
24. G.S.R. 444 (E), dated the 23rd March, 1983
25. G.S.R. 37 (E), dated the 17th January, 1984
26. G.S.R. 1652 (E), dated the 19th May, 1984
27. G.S.R. 637 (E), dated the 16th April, 1986
28. G.S.R. 329, dated the 3rd May, 1986

17967/11-2

29. G.S.R. 461, dated the 14th June, 1986
30. G.S.R. 2420, dated the 28th June, 1986
31. G.S.R. 436(E), dated the 24th July, 1986
32. G.S.R. 2460(E), dated the 24th July, 1986
33. G.S.R. 3677 (E), dated the 25th October, 1986
34. G.S.R. 1333(E), dated the 29th December, 1986
35. G.S.R. 85(E), dated the 6th February, 1987
36. G.S.R. 548(E), dated the 28th February, 1987
37. G.S.R. 379(E), dated the 10th April, 1987
38. G.S.R. 265(E), dated the 11th April, 1987
39. G.S.R. 480(E), dated the 29th April, 1987
40. G.S.R. 531(E), dated the 27th May, 1987
41. G.S.R. 438(E), dated the 6th June, 1987
42. G.S.R. 632(E), dated the 27th August, 1987
43. G.S.R. 688, dated the 30th August, 1987
44. G.S.R. 807 (E), dated the 2nd September, 1987
45. G.S.R. 823 (E), dated the 15th September, 1987
46. G.S.R. 829(E), dated the 15th September, 1987
47. G.S.R. 976(E), dated the 9th November, 1987
48. G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 1988
49. G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 1988
50. G.S.R. 55(E), dated 15th January, 1988
51. G.S.R. 212 (E), dated the 26th February, 1988
52. G.S.R. 344 (E), dated the 4th March, 1988
53. G.S.R. 388 (E), dated the 14th April, 1988
54. G.S.R. 462(E), dated the 2nd May, 1988
55. G.S.R. 639 (E), dated the 23rd May, 1988
56. G.S.R. 683, dated the 7th June, 1988
57. G.S.R. 624 (E), dated the 29th June, 1988
58. G.S.R. 633 (E), dated the 1st July, 1988
59. G.S.R. 684 (E), dated the 8th July, 1988
60. G.S.R. 866 (E), dated the 26th September, 1988
61. G.S.R. 1022 (E), dated the 31st December, 1988
62. G.S.R. 14 (E), dated the 4th January, 1989
63. G.S.R. 68(E), dated the 10th January, 1989
64. G.S.R. 180(E), dated the 24th February, 1989
65. G.S.R. 223(E), dated the 28th February, 1989
66. G.S.R. 180(E), dated the 1st March, 1989
67. G.S.R. 314(E), dated the 1st May, 1989
68. G.S.R. 435(E), dated the 9th June, 1989
69. G.S.R. 478(E), dated the 24th June, 1989
70. G.S.R. 639(E), dated the 26th August, 1989
71. G.S.R. 804(E), dated the 12th October, 1989
72. G.S.R. 821(E), dated the 16th October, 1989
73. G.S.R. 898, dated the 2nd December, 1989
74. G.S.R. 965, dated the 12th December, 1989
75. G.S.R. 1077(E), dated the 29th December, 1989
76. G.S.R. 1078(E), dated the 29th December, 1989
77. G.S.R. 967(E), dated the 30th December, 1989
78. G.S.R. 198(E), dated the 5th February, 1990
79. G.S.R. 100(E), dated the 1st March, 1990
80. G.S.R. 197(E), dated the 5th March, 1990
81. G.S.R. 312(E), dated the 5th April, 1990
82. G.S.R. 358(E), dated the 30th April, 1990
83. G.S.R. 379(E), dated the 11th May, 1990
84. G.S.R. 544(E), dated the 5th June, 1990
85. G.S.R. 545(E), dated the 5th June, 1990
86. G.S.R. 783(E), dated the 13th June, 1990
87. G.S.R. 68(E), dated the 10th August, 1990
88. G.S.R. 628(E), dated the 18th August, 1990
89. G.S.R. 671(E), dated the 31st August, 1990
90. G.S.R. 694(E), dated the 11th September, 1990
91. G.S.R. 783(E), dated the, 12th October, 1990
92. G.S.R. 918(E), dated the 28th November, 1990
93. G.S.R. 622(E), dated the 20th September, 1991
94. G.S.R. 178(E), dated the 6th April, 1992
95. G.S.R. 79(E), dated the 4th January, 1993
96. G.S.R. 259(E), dated the 5th March, 1993
97. G.S.R. 420(E), dated the 17th May, 1993
98. G.S.R. 615(E), dated the 20th September, 1993
99. G.S.R. 616(E), dated the 16th September, 1993
100. G.S.R. 778(E), dated the 27th December, 1993
101. G.S.R. 43(E), dated the 21st January, 1994
102. G.S.R. 193(E), dated the 18th February, 1994
103. G.S.R. 152(E), dated the 26th March, 1994
104. G.S.R. 484(E), dated the 2nd June, 1994
105. G.S.R. 502(E), dated the 8th June, 1994
106. G.S.R. 793(E), dated the 7th November, 1994
107. G.S.R. 836(E), dated the 5th December, 1994
108. G.S.R. 860(E), dated the 21st December, 1994
109. G.S.R. 873(E), dated the 21st December, 1994
110. G.S.R. 931(E), dated the 26th December, 1994

- |   |  |
|---|--|
| 111. G.S.R. 121(E), dated the 24th February, 1995 | 142. G.S.R. 23(E), dated the 11th January, 2002    |
| 112. G.S.R. 342(E), dated the 18th April, 1995    | 143. G.S.R. 366(E), dated the 14th May, 2002       |
| 113. G.S.R. 484(E), dated the 14th June, 1995     | 144. G.S.R. 381(E), dated the 24th May, 2002       |
| 114. G.S.R. 736(E), dated the 13th November, 1995 | 145. G.S.R. 612(E), dated the 2nd September, 2002  |
| 115. G.S.R. 737(E), dated the 13th November, 1995 | 146. G.S.R. 637(E), dated the 11th September, 2002 |
| 116. G.S.R. 926(E), dated the 20th November, 1995 | 147. G.S.R. 705(E), dated the 4th September, 2003  |
| 117. G.S.R. 764(E), dated the 29th November, 1995 | 148. G.S.R. 514(E), dated the 10th August, 2004    |
| 118. G.S.R. 783(E), dated the 7th December, 1995  | 149. G.S.R. 670(E), dated the 14th October, 2004   |
| 119. G.S.R. 201(E), dated the 7th May, 1996       | 150. G.S.R. 292(E), dated the 13th May, 2005       |
| 120. G.S.R. 372(E), dated the 21st August, 1996   | 151. G.S.R. 30(E), dated the 20th January, 2006    |
| 121. G.S.R. 27(E), dated the 18th September, 1996 | 152. G.S.R. 466(E), dated the 8th August, 2006     |
| 122. G.S.R. 517(E), dated the 6th December, 1996  | 153. G.S.R. 487(E), dated the 18th August, 2006    |
| 123. G.S.R. 573(E), dated the 18th December, 1996 | 154. G.S.R. 663(E), dated the 25th October, 2006   |
| 124. G.S.R. 267(E), dated the 19th May, 1997      | 155. G.S.R. 210(E), dated the 20th March, 2007     |
| 125. G.S.R. 295(E), dated the 30th May, 1997      | 156. G.S.R. 511(E), dated the 27th July, 2007      |
| 126. G.S.R. 318(E), dated the 10th June, 1997     | 157. G.S.R. 532(E), dated the 3rd August, 2007     |
| 127. G.S.R. 351(E), dated the 26th June, 1997     | 158. G.S.R. 775(E), dated the 18th December, 2007  |
| 128. G.S.R. 723(E), dated the 26th December, 1997 | 159. G.S.R. 22(E), dated the 9th January, 2008     |
| 129. G.S.R. 41(E), dated the 21st January, 1998   | 160. G.S.R. 59(E), dated the 25th January, 2008    |
| 130. G.S.R. 42(E), dated the 21st January, 1998   | 161. G.S.R. 238(E), dated the 28th March, 2008     |
| 131. G.S.R. 406(E), dated the 26th July, 1998     | 162. G.S.R. 400(E), dated the 25th May, 2008       |
| 132. G.S.R. 503(E), dated the 19th August, 1998   | 163. G.S.R. 588(E), dated the 11th August, 2008    |
| 133. G.S.R. 40(E), dated the 21st January, 1999   | 164. G.S.R. 864(E), dated the 18th December, 2008  |
| 134. G.S.R. 46(E), dated the 22nd January, 1999   | 165. G.S.R. 86(E), dated the 9th February, 2009    |
| 135. G.S.R. 77(E), dated the 9th February, 1999   | 166. G.S.R. 282(E), dated the 24th April, 2009     |
| 136. G.S.R. 345(E), dated the 13th May, 1999      | 167. G.S.R. 789(E), dated 28th October, 2009       |
| 137. G.S.R. 357(E), dated the 27th April, 2000    | 168. G.S.R. 310(E), dated 12th April, 2010         |
| 138. G.S.R. 672(E), dated the 25th August, 2000   | 169. G.S.R. 517(E) dated 16th June, 2010           |
| 139. G.S.R. 71(E), dated the 7th February, 2001   | 170. G.S.R. 408(E), dated 17th May, 2010           |
| 140. G.S.R. 387(E), dated the 24th May, 2001      | 171. G.S.R. 379(E), dated 5th May, 2010            |
| 141. G.S.R. 7(E), dated the 3rd January, 2002     | 172. S.O. 10(E), dated 4th January, 2011.          |